

-:प्रेस नोट दिनांक 18.07.22:-

थाना फरीदपुर जनपद बरेली ।

थाना फरीदपुर पुलिस टीम द्वारा स्मैक की तस्करी करने वाले 01 अपराधी को 155 ग्राम स्मैक (अन्तर्राष्ट्रीय कीमत करीब 12 लाख रूपये) व 01 अदद मोबाईल फोन सहित किया गिरफ्तार।

श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद बरेली महोदय के आदेशानुसार मादक पदार्थों के अवैध कारोबार में संलिप्त अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के अनुक्रम में श्रीमान पुलिस अधीक्षक ग्रामीण महोदय के मार्गदर्शन तथा श्रीमान क्षेत्राधिकारी फरीदपुर महोदय के कुशल नेतृत्व में फरीदपुर पुलिस टीम द्वारा स्मैक की तस्करी करने वाले 01 अपराधी को अवैध स्मैक सहित गिरफ्तार किया गया ।

दिनांक 18.07..2022 को थाना हाजा से पुलिस टीम गश्त व तलाश वांछित अपराधी गण में रवाना होकर थाना क्षेत्र में मामूर थी। पुलिस टीम द्वारा भूरे खां की गौटियाँ बाईपास पुराना भुता रोड कस्बा व थाना फरीदपुर जनपद बरेली पर गस्त करते हुए पहुंचे तो पुराना भुता रोड से 02 व्यक्ति आते दिखाई दिये जो पुलिस वालों को देखकर घबराकर वापस भागने लगे, शक होने पर पुराना भुता रोड पर पकड़ लिया गया । पकड़े गये व्यक्ति ने अपना नाम मोहम्मद इरफान अंसारी पुत्र अल्ताफ अंसारी निवासी मोहल्ला भूरे खां की गौटियाँ कस्बा व थाना फरीदपुर जनपद बरेली बताया । जिसके कब्जे से 155 ग्राम स्मैक व एक मोबाईल ओपो कम्पनी बरामद हुए एवं अभियुक्त इकरार पुत्र लाल मोहम्मद निवासी मोहल्ला भूरे का गौटियाँ कस्बा व थाना फरीदपुर जनपद बरेली मौके से भागने में सफल रहा है। संबंधित स्मैक तस्करो के विरूद्ध कानूनी कार्यवाही करते हुए मु0अ0सं0 437/2022 धारा 8/21/29 एनडीपीएस एक्ट पंजीकृत किया गया।

स्मैक तस्करो के विरूद्ध पंजीकृत अभियोगों का विवरण:-

1. मु0अ0सं0 437/2022 धारा 8/21/29 एनडीपीएस एक्ट थाना फरीदपुर जनपद बरेली।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

1. मोहम्मद इरफान अंसारी पुत्र अल्ताफ अंसारी निवासी मोहल्ला भूरे खां की गौटियाँ कस्बा व थाना फरीदपुर जनपद बरेली

फरार अभियुक्त का विवरण:-

1. इकरार पुत्र लाल मोहम्मद निवासी मोहल्ला भूरे खां की गौटियाँ कस्बा व थाना फरीदपुर जनपद बरेली।

बरामदगी का विवरण:-

1. कब्जे से 155 ग्राम स्मैक व एक मोबाईल ओपो कम्पनी व 120 रु0 नगद बरामद।

पुलिस टीम का विवरण:-

1- उ0नि0 श्री नवीन कुमार थाना फरीदपुर जिला बरेली ।

2- उ0नि0 राजकुमार थाना फरीदपुर जनपद बरेली।

3- का0 85 शिव कुमार थाना फरीदपुर बरेली।

4- का0 इंतजार अहमद थाना फरीदपुर जनपद बरेली।